

May 27, 2022

The General Manager
Department of Corporate Services **BSE Limited**25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith Copy of Newspaper advertisement of the Audited Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2022 publish in 'Jansatta' (Hindi) & 'Financial Express' (English) dated May 27, 2022.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

For Moongipa Securities Limited

SajeevJain

Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

101 36 M Raghavan

109 37 R Mathavarajan 133

Manish Kumar CS Incharge

(Rs. in Lacs)

Year

1,603.04

1,502.45

NIL

SALE NOTICE

RADIUS INFRATEL PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

Reg. Office: Tricone Tower, Plot No. 4B, 2nd Floor, Mayur Vihar District Centre, Mayur Vihar Extension, New Delhi - 110 091 Liquidator: Arvind Garg

Liquidator's Address: 302-A, Pal Mohan Plaza, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005 Email: arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com, Contact No. +91- 97189 31858, 011-47724484/ 85 E-Auction: Sale of Corporate Debtor as a going concern under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction: Tuesday, June 28, 2022 from 3.00 PM to 4.00 PM (With unlimited extensions of 5 minutes each

Sale of Radius Infratel Private Limited-in-liquidation as a Going Concern by the Liquidator who has been appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi vide order dated May 31, 2021. The sale will be effected by the Liquidator through e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

S.No	ASSETS DETAILS	RESERVE PRICE	INCREMENTAL PRICE	EARNEST MONEY AMOUNT
1	Sale of Corporate Debtor as a Going Concern along with liabilities towards security deposits of customers of the Corporate Debtor			
	Specific Exclusions:			
	 Cash & Cash equivalents (Cash in hand, Cash at bank and other fixed deposits). 			
	Any assets or their value recovered through proceedings for avoidance of transactions in accordance Chapter-III of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016		₹ 5,00,000/-	₹ 1,00,00,000/-

capital contribution (including share premium thereon) Terms and Condition of the E-auction are as under:

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and on WITHOUT
- RECOURSE" basis through approved service provider E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). Assets and Liabilities of the Corporate Debtor can be inspected from May 27, 2022 to June 24, 2022 only on request being made by the interested person and the last date for submission of EMD is June 24, 2022 latest by 5:00 PM.
- The final sale shall be confirmed after approval from Hon'ble NCLT.

iii. Certain pending litigations, details of which shall be provided in

iv. Any due amount realized from any contributory to the

corporate debtor towards uncalled capital and / or unpaid

The complete E-Auction process document containing details of Radius Infratel Private Limited as a going concern, online eauction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net

Contact: Mr. Praveen Thevar at +91-97227 78828, 079-68136841 E-mail ID: praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net

Radius Infratel Private Limited-in-liquidation

Arvind Garg

IBBI Reg. No. - IBBI/IPA-003/IP-N00029/2017-2018/10189 Address: 302A Pal Mohan Plaza Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com Contact No.: +91-97189 31858

Date: 27.05.2022

Place: New Delh



OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

R.C. No. 42/17

Sale Proclamation

CORPORATION BANK V/s R.S. DISTRIBUTERS & ORS.

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT. 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT. 1993 M/s R. S. Distributers, Through its Proprietor, Shri Raj Kumar karanwal, S/o Late Shri Sugan Chand, 142, Second Floor,

- Navyug Market, Ghaziabad, -201301. Smt. Sunita Karanwal, S/o Late Shri Raj Kumar Karanwal
- M/s Ruby Hotel & Banquet, Represented by its Partner, Mr. Raj Kumar Karanwal, S/o Late Shri Sugan Chand.
- M/s Lancer Health Care Pvt. Ltd., Represented by its Director, Shri Raj Kumar Karanwal, S/o Late Shri Sugan Chand. Respondent No. 2,3 and 4 are resident of :87, New Gandhi Nagar, Ghaziabad, UP.
- Shri Manish Karanwal S/o Shri J.P. Karanwal
- Smt. Namita Karanwal W/o Shri Manish Karanwal, Both 5 & 6 are Resident of: 16/1, Dayanand nagar, Block-C, Ghaziabad, Whereas Recovery Certificate No. 42/17 in OA No 251/14 dated 13-01-2017 drawn by the Presiding Officer, Debts Recovery
- Tribunal-I for the recovery of a sum of Rs. 8.78,17,195/- along with interest @ 13.25% per annum with monthly rests w.e.f. 01-06-2014 from the Certificate debtors together with costs and charges as per recovery certificate. 2 And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said
- certificate. 3 And whereas there will be due there under a sum of Rs. 8,78,17,195/- alongwith @ 13.25% p.a. with monthly rests w.e.f. 01-06-
- 2014. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the Property/properties as under shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding" through the website https://forclosureindia.com on 06-07-2022 between 12.00 Noon and 01.00 pm with extensions of 5 minutes duration after 01.00 pm, if required.

S. No.	Description of Property	Reserve Price	EMD
	Mortgaged Property Ruby Hotel (Plot No. 1, 2 and 3 and Nagar Nigam No. 4729, Nasarpur, Pargana Loni, Ghaziabad, U.P. and Entire Building constructed there upon excluding six shops at the front side, Ground Level Facing Main GT Road)		Rs. 1,74,60,000/- (Rs. One Crore Seventy Four Lakh Sixty Thousand only
	Mortgaged Property at Entire first floor of Property No. 1/8, situated at Kirti Enclave, Model Town, Tehsil & Distt. Ghaziabad U.P.	Rs. 49,00,000/- (Rs. Forty Nine Lakh)	Rs. 4,90,000/- (Rs. Four Lakh Ninety Thousand)

- The EMD shall be paid through Demand Draft/Pay Order in favour of Recovery Officer, DRT-I, Delhi-A/c R.C No. 42/17 alongwith self-attested copy of Identity (voter I-card/Driving/license/passport) which should contain the address for future communication and selfattested copy of PAN Card must reach to the Office of the Recovery Officer, DRT-I, Delhi latest by 04.07.2022 before 5.00 PM. The EMD received thereafter shall not be considered. The said deposit be adjusted in the case of successful bidders. The unsuccessful bidder shall take return of the EMD directly from the Registry, DRT-1, Delhi after receipt of such report from e-auction service provider/bank/financial institution on closure of the e-auction sale proceedings.
- The envelope containing EMD should be super-scribed "R.C.No. 42/17" alongwith the details of the sender i.e. address, e-mail ID and Mobile Number etc.
- 7. Prospective bidders are required to register themselves with the potal and obtain user ID/password well in advance, which is mandatory for bidding in above e-auction from M/s 4 Closure, 102, Amrutha Apartments, 20, Motinagar, Hyderabad 500018, A.P.,Tel.: +91-8142000062/63, Fax No. +91-40-23836405, E-mail: info@bankauctions.in, Website: bankauction.in, foreclosureindia.com, Authorized officer of E-Auction agency: Mr. Vikas Kumar (M.: 81420000809) Details of concerned bank officers/Helpline numbers etc. are as under

Name & Designation	E-mail & Phone Nos.	
Sh. Arun Kumar, Chief Manager	arbdelhi@unionbankofindia.com & 9811349731	
/hat is proposed to be sold are the rights to which the	e certificate debtors are entitled in respect of the propertie	es. The properties will

Recovery Officer shall not be responsible for any variation in the extent due to any reason. The properties will be sold on 'as is where is' and 'as is what is' condition. Intending bidders are advised to peruse copies of title deeds available with the Bank and also check the identity and correctness of the property details encumbrances, etc.

be sold along with liabilities, if any. The extent of the properties shown in the proclamation is as per the Recovery Certificate schedule.

- 9. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without
- 10. EMD of Unsuccessful bidder will be received by such bidders from the Registry of DRT-I, on identification / production of identity proof viz., PAN Card, Passport, Voter-ID Valid Driving Licence or Photo Identity Card issued by Govt. and PSUs. Unsuccessful bidders shall ensure return of their EMD and, if not received within a reasonable time, immediately, contact the Recovery Officer, DRT-I, Delhi/or the
- 11 The sale will be of the property of the above named CDs as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.
- 12 The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer 13 No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or
- attempt to acquire any interest in the property sold.
- 14 The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions: The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this
- 15 The amount by which the biddings are to be increased shall in multiple of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lacs only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.
- 16 The Successful/Highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 17 Successful/ highest bidder shall have to prepare DD/Pay order for 25% of the sale proceeds favouring Recovery Officer, DRT-I,
- Delhi, A/c R.C. No. 42/17 within 24 hours after close of e-auction and after adjusting the earnest money (EMD) and sending/depositing the same in the office of the Recovery Officer so as to reach within 3 days from the close of e-auction failing which the earnest money (EMD, shall be forfeited. 18 The Successful/Highest Bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favouring Recovery Officer, DRT-I, Delhi A/C. R.C.
- 42/17, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer, DRT-I on or before 15th day from the date of sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day alongwith the poundage fee @2% upto Rs 1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs 1000/- in favour of Registrar, DRT-I Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above.)
- 19 In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold. SCHEDITIE OF THE DEODEDTY

Sr. No.	Description of the Property to be sold with the names of the Co-owners where the property belongs to the defaulter and any other person as Co-owners.	unon the property	anaumbernes to which	Claims, if any, which have been put forward to the property, and any other known particulars bearing on its nature and value
1	Mortgaged Property Ruby Hotel (Plot No. 1, 2 and 3 and Nagar Nigam No. 4729, Nasarpur, Pargana Loni, Ghaziabad, U.P. and Entire Building constructed there upon excluding six shops at the front side,		No Information received	

(Rajesh Kumar) Recovery Officer-I, DRT-I, Delhi

Date: 26/05/2022 Place: Delhi

15, NBCC Tower, 3rd Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi

PREMISES REQUIRED ON RENT Bank of Maharashtra invites offers from owners/POA holders of premises strictly having permission from Local/Govt. authority for commercial activities for its branch. Approx. Carpet Area of Premises Location Sonipat Sector 14, Dist. Sonipat, Haryana 1200-2000 sqft

एक वरीबार एक बैंक

The proposed premises should be at ground floor (with sufficient parking place) on ease rent basis for opening a branch along with ATM room with separate entrance. The premises should have adequate power load and provision of other infrastructural requirements as per Bank's requirements and specifications. The premises should be ready for possession or to be ready within 10-15 days as per Bank's requirement. The interested parties / persons should submit their offers on the Bank's prescribed formats of "Technical Bid" and "Commercial Bid" respectively in two separate sealed envelopes super-scribing "Technical Bid" /"Commercial Bid" respectively upto 04.00 PM on 13.06.2022 in the office of Zonal Manager, Bank of Maharashtra, at 15, NBCC Tower, 3rd Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066. These formats can be obtained in person from above office during office hours and also can be downloaded from Bank's website www.bankofmaharashtra.in under "Tender" section along with this tender advertisement. The Bank reserves the right to cancel / reject any offer without assigning the reason thereof. No brokerage will be paid. Incomplete and delayed proposals will not be considered. For further details contact us at premises_del@mahabank.co.in; pln_del@mahabank.co.in Date: 26.05.2022, Place: New Delhi **Authorized Official**

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD (CIN: L65993DL1987PLC028669)

Read. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121

Email: moongipac@gmail.com, Website: www.mongipa.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (Amount Rs. in Lacs, except per share data)

Quarter Ended

No.		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
-11	Total Income from Operations (Net)	81.68	169.91	47.09	370.08	126.76
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	46.17	148.00	38.58	301.82	81.82
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	46.17	148.00	38.58	301.82	81.82
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32.12	111.04	0.86	244.55	41.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	32.12	111.04	0.86	244.55	41.63
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	305.48	305.48	305.48	305.48	305.48
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	68.10	68.10	26.47	68.10	26.47
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	1.05 1.05	3.63 3.63	0.03 0.03	8.01 8.01	1.36 1.36

Place: New Delhi

Date: 26.05.2022

S. Particulars

- The above standalone Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 26th May, 2022. The above is an extract of the detail format of the Standalone Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2022,
- filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.mongipa.com). For and on Behalf of Board of Directors of **MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD**

Pooja Jain (Whole Time Director) DIN: 00097037

MOONGIPA SECURITIES LTD (CIN: L74899DL1994PLC057941)

Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121 Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (Amount Rs. in Lacs, except per share data)

S.	Particulars		Quarter Ende	d	Year E	inded
No.		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	27.10	140.20	101.00	219.46	239.5
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(90.62)	97.26	71.74	111.76	165.0
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(90.62)	97.26	71.74	111.76	165.0
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(69.02)	70.18	66.22	78.44	157.9
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(69.02)	70.18	66.22	78.44	157.9
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02	501.0
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	308.00	308.00	150.09	308.00	150.0
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	(1.38) (1.38)	1.40 1.40	1.32 1.32	1.57 1.57	3.1 3.1

The above standalone Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit

Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 26th May, 2022. 2 The above is an extract of the detail format of the Standalone Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2022. filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.moongipa.net).

Place: New Delhi Date: 26.05.2022

NOTES:

MOONGIPA SECURITIES LTD. Ruchi Jain (Whole Time Director) DIN: 07291623

For and on behalf of Board of Directors o

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

CIN: L24219DL2006PLC145092

Registered & Corporate Office: G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015, Tel: +91-11-42083083 Website: https://sircapaints.com/ Email: cs@sircapaints.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (Figures in Lacs expect EPS)

Sr.	PARTICULARS	STANDALONE				
No.		Quarter Ended Yea		Year E	ear Ended	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.202	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total Income from Operations	5,491.81	5,965.03	20,442.64	15,732.87	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	906.31	2,057.87	3,795.41	2,258.80	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	906.31	2,057.87	3,795.41	2,258.80	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	618.68	1,521.49	2,772.72	1660.51	
5.	Total Comprehensive Income for the period	639.21	1,526.28	2,793.26	1665.30	
6.	Equity Share Capital	2,740.44	2,740.44	2,740.44	2,740.44	
7.	Other Equity	19,774.75	17,419.37	19,774.75	17,419.37	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	1. Basic: (not annualised)	2.26	5.55	10.12	6.06	
	2. Diluted: (not annualised)	2.26	5.55	10.12	6.06	

			(Figu	res in Lacs e	expect EPS			
Sr.	PARTICULARS	CONSOLIDATED						
No.		Quartei	Ended	Year E	nded			
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.202			
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)			
1.	Total Income from Operations	5,491.81	5,965.03	20,442.64	15,732.8			
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	906.01	2,057.66	3,794.88	2,255.4			
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	906.01	2,057.66	3,794.88	2,255.4			
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	618.45	1,521.53	2772.33	1658.2			
5.	Total Comprehensive Income for the period	638.99	1,526.33	2,792.87	1663.0			
6.	Equity Share Capital	2,740.44	2,740.44	2,740.44	2,740.4			
7.	Other Equity	19,772.08	17,417.09	19,772.08	17,417.0			
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	-)			
	1. Basic: (not annualised)	2.26	5.55	10.12	6.0			
	2. Diluted: (not annualised)	2.26	5.55	10.12	6.0			

The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEB1 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The full format of the Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results are available on the Company's website (www.sircapaints.com) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseIndia.com). for **SIRCA PAINTS INDIA LIMITED**

> Sanjay Agarwal **Chairman Cum Managing Director** (DIN: 01302479)

> > New Delhi

Kumarakruppa Frontier Hotels Private Limited CIN: U55101DL2001GOI112143

Registered Office: Scope Complex Core 8, 5th Floor, 7 Lodhi Road, New Delhi- 110003 Email:manishkumar@itdc.co.in

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Notice is hereby given that as per S-124 of the Companies Act, 2013 and the IEPF Authority (AATR) Rules, 2016 as amended, the equity shares in respect of which dividend is unpaid/unclaimed for seven consecutive years or more, are required to be transferred to IEPF Authority. Accordingly, individual notices issued to all 38 shareholder (detailed below and

comprising 57 shares), whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority. Shareholders may kindly verify the same. (Folio No starts with KHL0000) # Name Mr./Ms. FN # Name Mr/Ms. FN # Name Mr/Ms. 1 Rahmatha U. Shariff 020 14 Sumitra Shivram 066 27 Abha Sharma 029 | 15 M K Prabhushankar 073 28 R Manjunath Rajan Abraham 3 P N Vikraman 031 16 Mahesh C Dashora 078 29 D N Nandan 032 17 Roy George 4 Kurien John 086 30 D N Nirmala 5 V Gopi 040 18 Jamil Ahmed 092 31 E Chandrashekhr 124 053 19 Tara Chand 6 K D Varghese 093 32 D Elumalai 056 20 Nand Lal Malik 094 33 P V Devarajan 8 Arun U Shrote 057 21 P Raghavan 095 34 T Alexander Shobh Nath Singh 096 35 Lamuel S Dosslin 060 | 22 | Swaroop Mehta

062 23 Ravinder SArora

063 24 Anil Malik

064 | 25 | Indrajeet Malik 110 38 Deepak S Kothari 136 12 K Ramalaha 065 26 G S Santhagopalan 111 -13 B Shivram Shareholder/s, holding shares in physical form, may note that new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) will be issued for converting into demat form, after following the due process. Said shares would be transferred to the Authority and the original certificate(s)will stand automatically cancelled. For shares held in demat form, the Company would inform respective depository by way of corporate action for transfer of such shares in favour of the Authority f company does not receive any communication from shareholders by 22" August 2022, the Company shall transfer such shares to the IEPF Authority without any further notice as per the ovisions. Please note that no claim shall lie against the Company in such events. Such shares can be claimed back by the concerned shareholder from the Authority after following the procedure

For any query, RTAM/s KFin Technologies Limited, may be contacted at the address given at their website www.kfintech.com or at Tele No. 040-67162222or at Email: einward.ris@kfintech.com . For Kumarakruppa Frontier Hotels Private Limited

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMTIED

10 H Rame Gowda

C. Ramaiah

Date: 26.05.2022

2. Diluted:

4 Capital Redemption Reserve

16 Debt Service Coverage Ratio

15 Debenture Redemption Reserve

17 Interest Service Coverage Ratio

Particulars |

Year Ended

(FORMERLY KNOWN AS ANSAL PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED) CIN: U70100DL2010PTC208167 First Floor, The Great Eastern Centre, 70, Nehru Place,

Behind IFCI Tower, New Delhi 110019 FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED ON THE 31ST MARCH, 2022

[Regulation 52(8), read with Regulation 52(4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Quarter

(184.67)

1,502.45

(2,370.64)

1,502.45

0.13

0.47

Ended Ended Ended Particulars 31/03/2022 31/03/2022 31/03/2021 (Audited) (Audited) Total Income from Operations 1,106.17 9,301.99 11,691.82 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) (2,937.53)2,900.27 13.33 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (2,937.53)2,900.27 13.33 Net Profit / (Loss) for the period after tax 2,371.41 (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (273.19)(3,506.94)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (3,506.94)2,371.41 Paid up Equity Share Capital 14.79 14.79 18285.64 20,290.14 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 18285.64 Securities Premium Account 21986.20 21986.20 21986.20 16797.99 16797.99 18802.48 Net worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Nil Outstanding Redeemable Preference Shares Nil NIL Nil 0.81 Debt Equity Ratio 0.40 0.40 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -(2,370.64)1,603.05 1. Basic:

(a) The above is an extract of the detailed format of half yearly/ annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI Circular (CIR/IMD/DF1/69/2016) dated August 10: 2016. The full format of the financial results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also on the Company's website www.newlookdevelopers.com

Exchange, BSE Limited & can be accessed on the URL https://www.newlookdevelopers.com/investors/ c) The Above results of the Company have been Audited by the Statutory Auditors and they have issued an unqualified audit opinion on the same. d)# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted (if any) in the Statement of Profit and Loss in

b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) & (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing & Other

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock

accordance with Ind AS Rules, whichever is applicable. e)* - The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board of Directors New Look Builders and Developers Private Limited Date: 26.05.2022 Piyush Kumar Gupta (Director)

Place: New Delhi DIN: 07772976 BARAK VALLEY CEMENTS LIMITED

CIN: L01403AS1999PLC005741 Regd. Off.: Debendra Nagar, Jhoombasti P.O. Badarpurghat, Badarpurghat Karimganj,

Assam 788803 Corp Off.: DSM 450-451-452, DLF Towers, 15 Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi 110015

Tel: 03843-269881, Email: cs@barakcement.com, Website: www.barakcement.com EXTRACT OF AUDITED CONSLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(Rs. in Lakh except EPS) Quarter ended Year Ended

31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.202 Audited Audited 5543.15 5390.33 17820.98 14800.00 Total Income from operations Earning before Interest, Tax, Depreciation 746.14 450.38 2186.47 2077.47 and Amortization (EBITDA) Net Profit/(Loss) for the period (before tax. 279.49 (25.08)641.81 389.29 and/or exceptional items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (25.08)389.29 (after exceptional items) 775.61 (117.19)Net Profit/(Loss) from ordinary activities (139.49)(452.09) 235.14 511.24 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive (134.28)(457.79)240.36 ncome (after tax)] 505.55 Equity Share Capital 2216.00 2216.00 2216.00 2216.00 Earnings Per Share (of Rs 10 each) not annualised for quarters) (0.63) 2.31 1.06 Basic (Rs): 2.31 1.06 Diluted (Rs): (2.04)

Notes:

25th May 2022

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.barakcement.com). The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by

the Board of Directors on 25th May 2022. The figures for the quarter ended 31st March 2022 and 31st March 2021 are the balancing figures between audited figures in the respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of years ended 31st. March 2022 and 31st March 2021 respectively. Key numbers of Standalone financial results are as given below. The standalone financia

results are available at Company's website. Quarter ended Year Ended

Particulars 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.202 Audited Audited Audited 5502.40 4854.05 17482.66 13393.98 Income from operations Profit/(Loss) from ordinary activities before tax 740.43 232.22 (91.77)470.33 Profit/(Loss) from ordinary activities after tax 475.74 119.49 (427.30)317.86

During the year, Company has disposed -off whole of its investment in its three wholly owner subsidaries namely Goombira Tea Company Ltd., Chargola Tea Company Pvt. Ltd. and Singlacherra Tea Company Pvt. Ltd.. Loss on such sale of investments are included and shown as Exceptional items in above financial results. Consequently consolidated profit/ Loss for the year/ period is not comparable with the corresponding figures.

The Consolidated results include the financial results of the following subsidiaries viz. Meghalaya Minerals & Mines Limited (MMML), Cement International Limited (CIL), Badarpur Energy Private Limited (BEPL) and Valley Strong Cement (Assam) Limited (VSCAL)

Figures of the previous periods have been regrouped /rearranged, wherever necessary. For and on behalf of Board Barak Valley Cements Limited New Delhi Kamakhya Chamaria

(Director)

"IMPORTANT Whilst care is taken prior to acceptance of

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

financialexp.epap.in

Ground Level Facing Main GT Road)

Mortgaged Property at Entire first floor of

Property No. 1/8, situated at Kirti Enclave,

Model Town, Tehsil & Distt. Ghaziabad U.P.

Given under my hand and seal on 06th May. 2022

MOONGIPA SECURITIES LTD

(CIN: L74899DL1994PLC057941) Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005

Phone no.: 011-41450121

Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (Amount Rs. in Lacs, except per share data)

S.	Particulars	Quarter Ended Year Ended				
No.		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	27.10	140.20	101.00	219.46	239.50
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(90.62)	97.26	71.74	111.76	165.07
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(90.62)	97.26	71.74	111.76	165.07
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(69.02)	70.18	66.22	78.44	157.92
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(69.02)	70.18	66.22	78.44	157.92
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02	501.02
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	308.00	308.00	150.09	308.00	150.09
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				- X	
	a) Basicb) Diluted	(1.38) (1.38)	1.40 1.40	1.32 1.32	1.57 1.57	3.15 3.15

The above standalone Audited Financial Results for the guarter & year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 26th May, 2022.

The above is an extract of the detail format of the Standalone Audited Financial Results for the guarter & year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.moongipa.net).

For and on behalf of Board of Directors of MOONGIPA SECURITIES LTD. Ruchi Jain (Whole Time Director)

DIN: 07291623

energizing lives

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

CIN: L21098UP2012PLC048300

Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Ph.: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242, E-mail: cs@genuspaper.com, Website: www.genuspaper.com,

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

						(Rs. in	Lakhs, Unl	ess Otherw	ise Stated)
STANDALONE CONSOLIDATE							LIDATED		
S.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR	YEAR ENDED		R ENDED	YEAR ENDED	
N.	PARTICULARS	31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	12837.09	9452.29	43989.29	28666.66	17489.91	9452.29	58244.47	28666.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	428.40	662.85	611.93	1013.77	636.82	662.85	2946.88	1013.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	428.40	662.85	428.40	1013.77	636.82	662.85	2946.88	1013.77
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	683,66	515.61	831.42	768.79	765.08	515.61	2578.71	768.79
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	936.43	452.72	1084.19	705.91	891.26	433.39	2704.89	686.57
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8)	8	39	8	858	- 81	8	8
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)								0.
	Basic :	0.27	0.20	0.32	0.30	0.30	0.20	1.00	0.30
	Diluted:	0.27	0.20	0.32	0.30	0.30	0.20	1.00	0.30

The above audited financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 26, 2022. Audit Report of these results as required under Regula-tion 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company The Statutory Auditor has issued an unqualified report thereon.

prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as The full format of the results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and

The Above financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS)

- on the Company's website (www.genuspaper.com) Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, Wherever necessary to conform to those current year Classification
- For and on behalf of the Board of Director:

Place: Moradabad

(Kailash Chandra Agarwal) Managing Director & CEO DIN: 00895365

कब्जे की

(अधिकृत अधिकारी)

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मांग सचना दिनांक और राशि



ऋणी / गारंटर(ओं) का नाम

Date: May 26, 2022

Place: New Delhi

Date: 26.05.2022

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

CIN: L65910MH1984PLC032639 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर -601, 6वीं मंजिल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070-टी 91 22 38024000, पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर -6, ब्लॉक-ए बेसमेंट, सेक्टर 2, नोएडा - 201301

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 और परिशिष्ट-IV के नियम 8-(1) के अनुसार अचल संपत्ति के लिए

जबिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के तहत पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेर (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी / गारंटर को जारी की गई मांग नोटिस (सूचनाओं) की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उक्त नोटिस जारी किया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणी / गारंटर(ओं) और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लेखित राशि, उस पर ब्याज सहित देय राशि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। के प्रभार के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण

1/25	70 117 11 CO (GII) 47 11 1	सुराबत संपात (अयल संपात) का विवरण	नाग सूयमा दिमाक आर सारा	तिथि
1.	(ऋण कोड संख्या–00003112), (नई दिल्ली–शाखा), सिद्धार्थ त्यागी (उधारकर्ता) / मनु त्यागी, सुशील त्यागी (सह—उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश — यूनिट नंबर 1605, 16वीं मंजिल, टॉवर /ब्लॉक बी 3 अप कंट्री, प्लॉट नंबर टीएस—1 सेक्टर—17 ए, येडायत डीए,गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश:—201303	31–05–2021 रु.9,73,724 / – (नौ लाख तिहत्तर हजार सात सौ चौबीस रुपये)	20-05-2022
2.	(ऋण कोड संख्या—पीटीएम32619), (दिल्ली—पीतमपुरा—शाखा), कपिल कपिल (उधारकर्ता) / (सह—उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश — एच/फ्लैट नं. 190, तल नं. तीसरा, ओमाइक्रोन—iii, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश:— 201308	20–07–2021 रु.12,26,731 / – (बारह लाख छब्बीस हजार सात सौ इकतीस रुपये मात्र)	20-05-2022
3.	(ऋण कोड संख्या –00000122), (आगरा– शाखा), हरिशंकर अग्रवाल (उधारकर्ता) / रजनी अग्रवाल (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश — फ्लैट नंबर 112 (ए) 123, राधापुरम एस्टेट के पास ,पहली मंजिल ,अशोक हाइट्स गणेशरा चौराहा, मथुरा, उत्तर प्रदेश—281001	19—11—2019 रुपये 7,92,850 / — (रुपये सात लाख बानवे हजार आठ सौ पचास मात्र)	21052022
4.	(ऋण कोड संख्या–00001774), (आगरा–शाखा), नीरज सेंगर (उधारकर्ता) / कल्पना सिंह, रोशन सिंह राणा (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश— प्लॉट नंबर 80, खसरा नंबर 210६6 का हिस्सा श्री जी कॉलोनी मौजा गोविंदपुर, मथुरा,उत्तर प्रदेशः — 281002	24–05–2021 रु.18,23,106/– (अठारह लाख तेईस हजार एक सौ छह रुपये मात्र)	21-05-2022
5.	.(लोन कोड नंबर—00002131), (नेताजी सुभाष प्लेस ब्रांच), ट्रैकसन सोलर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) / आशीष कुमार, अरविंद कुमार, घरौंदा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बाबू लाल (सह—उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश —सेक्टर इकोटेक—III, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश:— 201306	14–06–2021 रुपये 1,43,49,922 / – (रुपये एक करोड़ तिरालीस लाख उन्चास हजार नौ सौ बाईस मात्र)	21-05-2022
6.	(ऋण कोड संख्या–00001497), (गाजियाबाद–शाखा), विपिन कुमार यादव (उधारकर्ता) / सुषमा यादव (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश —फ्लैट नंबर पीएच—2, 12वीं मंजिल, टावर नंबर—ए, प्लॉट नंबर— एफ—7, अंतरिक्ष ग्रीन्स, सेक्टर—50, नोएडा ,गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश:— 201301	24–09–2021 रु.2,53,74,606 / – (रुपये दो करोड़ तिरपन लाख चौहत्तर हजार छह सौ छह मात्र)	21-05-2022
7.	(ऋण कोड संख्या–0000144), (बहाद (ऋण्–शाखा), राजेश (उधारकर्ता)/सुषमा (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश —हाउस नंबर 2768, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवानी, हरियाणा भिवानी, हरियाणाः— 127021	12–05–2021 रुपये 10,43,655/– (रुपये दस लाख तिरालिस हजार छह सौ पचपन मात्र)	23-05-2022
8.	(ऋण कोड संख्या–00044365), (गुड़गांव– सोहना रोड–शाखा), राजकुमार भगत (उधारकर्ता) / नीरज कक्कड़, मिराज बायोटेक (सह–उधारकर्ता	संपत्ति के सभी भाग और अंश — एलएचएस के जीएफ, संपत्ति संख्या नई 320, पुरानी 199. खसरा संख्या 189/150, ख्वात संख्या 36, खतौनी संख्या 54,संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली , नई दिल्ली : — 110065	14–06–2021 रु.70,80,343 / – (रुपये सत्तर लाख अस्सी हजार तीन सौ तैंतालीस मात्र)	24-05-2022
9.	(ऋण कोड संख्या–00001274), (मेरठ–शाखा), राजेंद्र (उधारकर्ता) / रजनी सोनी (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश —हाउस नंबर 44, खसरा नंबर 129एम् आई, डागर विहार फेज 2, गांव साह विश्व मुरादनगर, तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश:— 201204	28–06–2021 रु.10,26,207/– (रुपये दस लाख छब्बीस हजार दो सौ सात मात्र)	24-05-2022
10.	(ऋण कोड संख्या–00042025), (फरीदाबाद–सेक्टर 19–शाखा), पवन कुमार (उधारकर्ता) / ईशा शाक्य (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश —एच नंबर (पुराना) ,3922 ब्लॉक सी, नया नंबर 4685 प्लॉट नंबर 75 ,खसरा नंबर 69 / 1, 62 / 21 जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद फरीदाबाद हरियाणाः — 121001	24–09–2021 रु.22,46,578/ – (रुपये बाईस लाख छियालीस हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र)	24-05-2022
11.	(ऋण कोड संख्या–00043859), (गुड़गांव–सो. हना रोड–शाखा), माखन लाल (उधारकर्ता)/ रेखा देवी (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और अंश — Rzp 287, तीसरी मंजिल (Rhs), फ्लैट नंबर—401 खसरा नं.43/18/3, गांव — पालम, गली नंबर—5 ,राज नगर—2, दिल्ली नई दिल्ली ,दिल्ली:— 110075	23—10—2020 रु.2,11,670 / — (दो लाख ग्यारह हजार छह सौ सत्तर रुपये मात्र)	25-05-2022

IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित

अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन देना बैंक — अब **बैंक ऑफ बड़ीदा** का

प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ

पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **/बंधककर्ता** श्रीमती रूपा

वर्मा पत्नी अंकित वर्मा और श्री अंकित वर्मा पुत्र विनेश वर्मा को मांग सूचना दिनांक 14.02.2022

को जारी किया था जिसमें सचना मे उल्लेखित राशि रू 13.01.734.70 (रु. तेरह लाख एक

हजार सात सौ चौतीस और पैसे सत्तर मात्र) उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के

ऋणधारक / गारंटर राशि का प्रतिभूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा

ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे

वर्णित संपत्ति / आस्तियों का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो

विशेष रूप से ऋण धारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो / आस्तियों

के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन

देन देना बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा, दरियागंज, 3631, नेताजी सुमाष रोड, नई दिल्ली—110002

के प्रभार वास्ते रू 13,01,734.70 (रु. तेरह लाख एक हजार सात सौ चौतीस और पैसे सत्तर

उघारकर्ता का घ्यान एक्ट की घारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत स्रक्षित

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्तियां जोकि फ्लैट नं. एसएफ–1, द्वितीय तल (छत के अधिकार

के) प्लॉट नं. 264 (खसरा नं. 1481 में से) बालाजी एन्कलेव, गोविंदपुरम, गाजियाबाद,

यु.पी.—201013 में स्थित, क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मी., चौहदी : पुरब में — 25फीट चौडी

र्राड, पश्चिम में — प्लॉट नं. डी—01, उत्तर में — 25फीट चौडी रोड, दक्षिण में — प्लॉट

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

दरियागंज शाखा

3631, नेताजी सुभाष रोड,

दरियागंज, नई दिल्ली-110002

प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

) बैंक ऑफ़ बड़ौदा

) Bank of Baroda

freset m> das

अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था।

मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित **के अधीन होगा।**

नं. 263

दिनांक 24.05.2022, स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सुचना हमारी जानकारी में आया है कि कछ अवांछित तत्वों द्वारा मैगेन्टा फाइनांस सर्विसेस प्रा.लि. (मैगेन्टा) के नाम का अनावश्यक लाभ उठाया जा रहा है तथा मोबाईल एप्लिकेशन्स अर्थात डीओए कैश तथा अन्य एप्लिकेशन्स का उपयोग कर धन दिया जा रहा है। एतदद्वारा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि मैगेन्टा के नाम में एप्लिकेशन्स द्वारा धन देने वाला ऐसे जालसाजों के झांसे में नहीं आएं। मैगेन्टा धन देने के लिये ऐसे किसी मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करता है, न ही मोबाईल एप्लिकेशन्स के माध्यम से किसी को धन देने से उसका कोई सरोकार है ऐसे नकली मोबाईल एप्लिकेशन का गलत उपयोग करने वालों के विरुद्ध काननी कार्रवाई करने के लिये मैगेन्टा संबंधित विधि प्रवर्त्तन एजेन्सियों तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों से सम्पर्क कर रहा है

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतू) नियम 8—(1) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभति हित (पूर्वतन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ प्रतित धारा 13(12) के अंतर्गत पहल्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कंपनी के पाधिकत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के

आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विकयार्थ कोई भावी कदम नहीं उदाया जाएगा।

प्रतिभुगतान हेतु एक मांग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकत को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित . उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, व यहां इसमें निम्न अंकिताानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल–एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और

उघारकर्ता(ओं) / गारंटर(प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की	आधिपत्य की
रों) के नाम,	सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार	प्रोस्पेक्ट नं. 910169 रु. 1,32,604.00 / —	तिथि	तिथि
श्री परविंदर जांगड़ा,	हैं: भूखंड नगर निगम संख्या 686, क्षेत्र मापन	(रुपए एक लाख बत्तीस हजार छह सौ चार	17 मार्च 2022	24 मई 2022
श्रीमती ओमवती एवं श्री	00 41 191, GREET RESTRICT	भात्र) प्रोस्पेक्ट नं. 905700		
राम चरण	चाहरदीवारी से घिरा हुआ है और नजफगढ़	रु. 20,73,036.00 / — (रुपए बीस लाख		
(प्रोस्पेक्ट संख्या	की आबादी, दिल्ली, दिल्ली, 110043, दिल्ली,	तिहत्तर हजार छत्तीस मात्र)		
910169, 905700)	भारत में स्थित है।			
0 1 10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , ,
अन्य विवरणी के लिए	कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्याल	य म संपंक करः भूखंड सं. 30 / 30ई, उ	ज्परा भूतल, मुख्य	शिवाजी मार्ग,

नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली तथा/अथवा निगमित कार्यालयः भूखण्ड सं. 98, फेज–1v, उद्योग विहार, गडगांव हरियाणा। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

दिनांकः 27.05.2022, स्थानः दिल्ली

varthana

Varthana Finance Private Limited (Formerly known as M/s. Thirumeni Finance Private Ltd.,)

Registered Office at: No. 5BC-110, Varasiddhi, 3rd Floor, Outer Ring Road, Service Road, 3rd Block, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore-560043. Website www.varthana.com, Email: care@varthana.com, Phone: 080-68455777 Branch Office: Unit No. 3, Ground Floor, Pearls Omaxe Tower, Plot B 1, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034.

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is here by given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Mortgagor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of M/s. Varthana Finance Private Ltd. Delhi, (Formerly known as Thirumeni Finance Private Ltd), will be sold on 30-06-2022 (Thursday) between 1-00 p.m to 2-00 p.m., "As is Where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, for recovery of dues of below mentioned Loan Account. The details of the Borrower(s)/ Mortgagor(s) Secured Assets/ Dues/ Reserve Price/ Auction date & time, EMD & Bid increase amount are

Name of The Borrowers/Mortgagors: 1). M/s. S.V.M. International School, Rep. by its Authorised Signatory, 2). M/s. Shri Balaji Education Trust, Rep. by its Authorised Signatory, 3). Sanjay Kumar, S/o. Jai Bhagwan, 4). Reena, W/o. Sanjay Kumar. Loan A/c No. S19DEL-DEL-005271.

के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 24.05.2022 Details of Total Outstanding Amount in Rupees: Rs. 58,25,703/- (Rupees Fifty Eight Lakhs Twenty Five Thousand Seven Hundred and Three Only) as on as on 21-05-2022, together with future agreed contractual interest plus legal costs/ charges, till realisation of entire amount.

Details of the Immovable Property: All piece and parcel of property bearing Khewat No.228 Khata No.289,290, Measuring 8 Kanal, Vakya Rakva, Mauja Baland Tehsil and District Rohtak. East By : Agricultural Land, West By : Katcha Beri Road, North By : S.V.M College, South By : Agri Land.

The Reserve Price of the property will be of Rs.1,10,98,600/- and the Earnest Money Deposit will be (EMD 10% of Reserve Price) Rs.11,09,860/-.

Known Encumbrances, if any: Nil.

Intending bidders should submit their EMD amount along with KYC documents (PAN Card and Aadhaar/Voters ID/Driving Licence) and Rs. 1,000/- being Non-refundable Tender fee by way of Demand Draft/Pay Order drawn on a Scheduled Bank, favouring "M/s. Varthana Finance Private Limited", payable at Delhi before 5.00 p.m. on or before 29-06-2022 (Wednesday).

The Auction will be held at: M/s. Varthana Finance Pvt. Ltd., Unit No. 3, Ground Floor, Pearls Omaxe Tower, Plot B 1, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034 on 30-06-2022 (Thursday) between 1-00 p.m. to 2-00 p.m. For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in Company's website i.e.: www.varthana.com

The prospective bidders may contact the Authorised Officer Mr. Mittin Kakkar - Phone No.8685050505, Mr. Raman Arora -Phone No. 7827926395 and Mohd Hasan - Phone No. 8708186705 for further details/information.

Date: 27-05-2022, Place: Bangalore Authorised Officer, Varthana Finance Private Limited



पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर-128, नोएडा-201304 (उ.प्र.) CIN: L45203UP2007PLC033119

फोन.: 91 (120) 4609000, 2470800, फैक्स: 91 (120) 4963122, ईमेल: jpinfratech.investor@jalindia.co.in वेबसाईट: www.jaypeeinfratech.com

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश (ईपीएस को छोडकर रु. लाख

स्टैण्डएलोन परिणाम समेकित परिणाम समाप्त तिमाही समाप्त तिमाई समाप्त वर्ष विवरण 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित 1 प्रचालनों से कुल आय 23,832 21,397 19,116 78,60 61,58 30,870 29,476 24,744 107,91 2 अविध हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) (69,809) (52,353)(89,137) (232,095)(226,850 (73,880)(54,003)(49,160)(242,212)(196,339) 3 कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथव (52,353)(232,095) (226,850 (73,014)(54,003) (196,339) (69,809) (89,137) (49,160)(241,346) असाधारण मदों के पश्चात) 4 कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा (69,809)(52,353)(89,137) (232,095) (226,850 (73,014)(54,003) (49,160) (241,346) (196,339) असाधारण मदों के पश्चात अविधि हेतु कुल व्यापक आय [अविधि (69,805)(52,354)(89,138) (232,094)(226,854 (73,000)(53,990) (49,130)(241,311)(196,312)(कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित] प्रदत्त इक्विटी शेयर पुँजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मुल्य) 138,893 138,893 138,893 138,893 138,893 138,893 138,893 138,893 138,893 138,893 7 अन्य इक्विटी (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के (694,966)(462,872 (720,001)(478,690) अनुसार पुनर्मुल्यांकन आरक्षितियों को छोडकर) आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) सतत तथा असतत प्रचालनों हेत (वार्षिकीकृत नहीं) -बेसिक (रु. में) (5.03)(3.77)(16.71) (16.33) (5.26)(3.89)(3.54)(17.38)(14.14)(6.42)-डाइल्यूटेड (रु. में) (5.03)(3.77)(6.42)(16.71) (16.33)(5.26)(3.89)(3.54)(17.38)(14.14)

1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/वर्ष के स्टैण्डएलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/वर्ष के उपर्युक्त परिणामों का पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट (www.jaypeeinfratech.com) पर उपलब्ध है। सेबी (सुचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित मद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को भेजे गए हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

2. कम्पनी के स्टैंडएलॉन परिणामों में केवल एक ही खंड अर्थात् यमुना एक्स्प्रैसवे प्रॉजेक्ट, एक एकीकृत तथा अविभाजनीय परियोजना शामिल है जिसमें अन्य बातों के अलावा यमना एक्स्प्रैसवे का निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव तथा एक्स्प्रैसवे से लगे 25 मिलियन वर्ग मी. भिम का विकास शामिल है।

3. यह कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड एवं अन्य बनाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एवं अन्य के मामले में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 744/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 तथा माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (सिविल अपील डायरी सं. 2019 की 27229 तथा सिविल अपील सं. 2019 की 6486) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 के साथ पठित माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 तथा 14.08.2018 के माध्यम से दिवाला एवं दिवालिया संहिता. 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के सन्दर्भ में 09.08.2017 से कॉर्पोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील डायरी सं. 14741/2020 में जेपी केनसिंग्टन बोलीवर्ड अपार्टमेंटस वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य बनाम एनबीसीसी (इण्डिया) लिमिटेड एवं अन्य के बीच अपने आदेश दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से एनसीएलएटी के साथ समस्त लम्बित अपील/मकदमा स्वयं अपने पास हस्तान्तरित कर दिया। इसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईआरपी को कम्पनी के समस्त मामलों का प्रबन्धन सौंपने का निर्देश दिया। तत्पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24 मार्च, 2021 के माध्यम से इस निर्णय की तिथिसे 2 सप्ताह के भीतर इसे जमा करने के लिए समय देते हुए केवल सरक्षा रिएलटी के साथ लक्षदीप इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (''सुरक्षा ग्रुप'') तथा एनबीसीसी से संशोधित/नवीन समाधान योजनाएँ आमन्त्रित करके निर्णय की इस तिथि से 45 दिनों के विस्तारित समय के भीतर पूरा करने के लिए अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल (आईआरपी) को निर्देशित किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरपी न तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई रुचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित करेगा और न ही किसी नयी सूचना ज्ञापन के निर्गमन की अपेक्षा होगी।

तदनुसार, आईआरपी ने एनबीसीसी तथा सुरक्षा ग्रुप से नवीन/संशोधित समाधान योजना आमन्त्रित की है। परिणामतः, दोनों आवेदकों ने 07.04.2021 को अपनी संविदाएँ प्रस्तुत कर दीं। समय-समय पर सीओसी में कथित समाधान योजना की परिचर्चा के उपरान्त, दोनों आवेदकों ने अपनी संविदाएँ संशोधित कर दीं। इसके उपरान्त 23 जून, 2021 को सुरक्षा समूह द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना दिनांक 7 जून, 2021 (इसके संयोजन के साथ पठित) को सीओसी ने अनुमोदित कर दिया और इसे 07.07.2021 को माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठ दिल्ली के पास प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठ, दिल्ली के समक्ष आईसीआईसीआई बैंक, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एवं अन्य ने सुरक्षा ग्रुप की अनुमोदित समाधान योजना के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है। वर्तमान में यह मामला अन्तिम निर्णयादेश हेतु माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठ दिल्ली के समक्ष लिम्बत है।

आईआरपी वर्तमान में कम्पनी के प्रचालनों का प्रबन्धन कर रहा है और तदनुसार, वित्तीय परिणाम गोइंग कन्सर्न आधार पर तैयार किये गये हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा निर्देश दिया कि रु. 750 करोड़, जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने पारित आदेशों के अनुसार, चित्रा शर्मा के मामले में जमा किया गया था, और उस पर अर्जित ब्याज एनसीएलटी को हस्तांतरित कर दी गई है और जेएएल और कंपनी के बीच खातों के मिलान के अधीन होगी, जिसे एनसीएलटी की देखरेख में स्वतंत्र लेखा विशेषज्ञ द्वारा लिया जाएगा और एनसीएलटी इस तरह से उचित आदेश पारित करेगा कि, यदि कोई राशि जेआईएल/जेआईएल के होमबॉयर्स द्वारा प्राप्य पाई जाती है, तो उसे रु. 750 करोड़ और अर्जित ब्याज की उक्त राशि में से जेआईएल को हस्तांतरित कर दी जाएगी; और उसके शेष को उचित खाते में जेएएल को वापस कर दिया जाएगा। माननीय एनसीएलटी ने आदेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी (जीटी) को मिलान करने के लिए स्वतंत्र लेखा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट माननीय एनसीएलटी के पास प्रस्तुत कर दी है। वर्तमान में यह मामला माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठदिल्ली के समक्ष लम्बित है।

5. यस बैंक लिमिटेड ने कंपनी की अधीनस्थ कंपनी जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचसीएल) को दिनांक 08 नवंबर 2019 के पत्र के माध्यम से एक 'लोन रिकॉल नोटिस' जारी किया था। इसके बाद यस बैंक लिमिटेड ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 7 के तहत माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ ने जेएचसीएल को अपना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया और तदनुसार जेएचसीएल द्वारा इसे

दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध किया गया। हालांकि, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ ने अपने आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2021 द्वारा जेएचसीएल को और समय देने से इनकार कर दिया। जेएचसीएल ने इस आदेश के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ('एनसीएलएटी'), नई दिल्ली के समक्ष 22 अक्टूबर 2021 को एक अपील दायर की जिसे 29.10.2021 को सूचीबद्ध किया गया था और इसकी अनुमति दी गई है। जेएचसीएल को 10 नवंबर 2021 तक माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इस मामले को बाद में माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच के पास उठाया गया था। जेएचसीएल और यस बैंक ने अपनी लिखित दलीलें दाखिल की हैं और दोनों पक्षों की लंबी-चौड़ी दलीलें कई तारीखों को सुनी गई हैं। मामला अब आदेश के लिए आरक्षित है।

6. प्रचालन से होने वाली कुल आय में 31.03.2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः रु. 6682.98 लाख और रु. 10809.71 लाख विकास के लिए भूमि से राजस्व शामिल है।

7. दुन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रा.लि. (स्वतन्त्र एजेंसी) के माध्यम से कम्पनी ने यमुना एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक अध्ययन कराया है और लेखा पुस्तकों में वसूली योग्य राशि तक आस्तियों के मूल्य लाना सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक स्वतन्त्र एजेंसी-मॉट मैकडोनाल्ड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अनुमानित लागत की समीक्षा की गयी। हानि, यदि कोई हो, उसके प्रभाव को लेखा पुस्तको में शामिल किया गया है। 31.03.2022 तक एक्सप्रेसवे का परिशोधन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बेचे गए माल की लागत को वित्तीय विवरणों में क्रमशः यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अध्ययन और स्वतंत्र एजेंसियों द्वार रियल एस्टेट लागत समीक्षा के अनुसार लिया गया है।

8. चॅंकि निदेशक मण्डल की शक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है अतः उपर्यक्त परिणाम निदेशक मण्डल द्वार स्वीकार नहीं किये गये हैं। हालाँकि स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल करने के लिए इसकी समीक्षा तथा इस पर हस्ताक्षर कम्पनी के आईआरपी श्री अनुज जैन द्वारा 25 मई, 2022 को किया गया। वर्तमान में कम्पनी का कोई सीएफओ (31.07.2020 को त्यागपत्र दे दिया) अथवा सीईओ नहीं है।

9. कम्पनी ने संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ अनुबंधों के अनुसार अपनी लेखा पुस्तकों में उपलब्ध शेषों के अनुसार वित्तीय विवरणों में बकाया ऋणों एवं ब्याज को उद्घाटित किया है। वित्त लागत में 31.03.2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए ऋण पर ब्याज क्रमशः रु. 61298.70 लाख तथा रु. 235914.74 लाख शामिल हैं जिसका सफल समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना के क्रियान्वयन पर पनर्कथित किया जायेगा

10. कम्पनी ने रिपोर्ट करने की तिथि में वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों तथा देयताओं एवं उसकी वाहब राशियों के कर आधार के बीच अस्थाई अंतरों पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं की समीक्षा की है लेकिन, चूंकि कम्पनी सीआईआरपी के अधीन है, निकट भविष्य में कर योग्य लाभ में आभासी अनिश्चितत होगी तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ सेट-ऑफ की जायेंगी। तदनुसार, रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिये आस्थगित कर (निवल परिसम्पत्तियों) का विचार नहीं किया गया है।

11. निजी तौर पर 31 मार्च, 2022 तक रु. 21195 लाख का सुचीबद्ध गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) है, जो लैंड पार्सल 4 यानी टप्पल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित 124.73 एकड़ भूमि पर विशेष शुल्क/बंधक के माध्यम से प्रतिभूत है। उक्त एनसीडी के संबंध में कंपनी ने सौ प्रतिशत से अधिक परिसंपत्ति कवर अनुरक्षित रखा है, जो एनसीडी की मुल बकाया राशि अदा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, कंपनी कॉपोरेंट दिवाल समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है और एनसीडी धारक यानी एक्सिस बैंक ने एनसीडी के संबंध में दावा दायर किया है और बकाया राशि के लिए 'वित्तीय लेनदार' है और बकाया राशि का निपटान अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार किया जाएगा।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2020 तथा 18.08.2020 के माध्यम से कम्पनी के स्वामित्व की 758.37477 एकड़ भूमि के बंधक को मुक्त करने का प्रावधान किया जिसे जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधाओं के लिए प्रतिभूत के रूप में दिया गया था

758.37477 एकड़ का अवमुक्त विलेख कम्पनी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है। 13. वैश्विक रूप से और भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का प्रकोप आर्थिक गतिविधि के लिए गड़बड़ी और मन्दी का कारण है। सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण, कंपनी के संचालन को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के कुछ भाग हेतु निलंबित/धीमा कर दिया गया और तदनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और इसलिए पिछली अवधियों के साथ तुलनीय नहीं हैं। परिचालन और आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे आवश्यक सावधानियों के साथ फिर से शुरू हो गई हैं।

14. 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु आँकड़े पूर्ण वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और सम्बन्धित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वर्ष तक के प्रकाशित आंकड़ों के मध्य सन्तुलनकारी आँकड़ो

का प्रतिनिधित्व करते हैं। 15. चालू तिमाही/वर्ष के आँकड़े के साथ तुलनीय बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व तिमाही/वर्ष के आंकड़ें

पुनर्कार्यरत/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

(अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल

तिथि : 25 मई, 2022 (IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306

www.readwhere.com

स्थानः दिल्ली / एनसीआर

दिनांक: 27 मई. 2022